



**LJ-1216**

**B.Com. (Part-III)**

**Term End Examination, 2021**

**Paper - IV**

**Auditing**

*Time : Three Hours]*

*[Maximum Marks : 75*

*[Minimum Pass Marks : 25*

---

**नोट :** सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

**Note :** Answer all questions. All questions carry equal marks.

---

**इकाई / Unit-I**

1. आन्तरिक अंकेक्षण क्या है? इसके उद्देश्य एवं महत्व को बताइए। वैधानिक अंकेक्षक की इस सम्बन्ध से क्या स्थिति है?

What is Internal Audit? Give its objects and importance. What is the position of statutory auditor in relation there to?

**अथवा / OR**

( 2 )

नैत्यक जाँच क्या है ? इसके उद्देश्य क्या हैं ? इसके गुणों तथा सीमाओं को विवेचना कीजिए।

What is routine checking ? What are its objects ? Discuss its merits and limitations.

### इकाई / Unit-II

2. आन्तरिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं ? आन्तरिक नियंत्रण, आन्तरिक निरीक्षण तथा आन्तरिक अंकेक्षण के अन्तर्सम्बन्ध पर प्रकाश डालिए।

What do you mean by internal control ? Write a detailed note on inter-relationship of internal control, internal check and internal audit.

### अथवा / OR

“प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है।” समझाइए। प्रमाणकों को प्रमाणन करते समय किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

“Vouching is the backbone of Auditing.” Explain. What points should be kept in mind while vouching the vouchers ?

### इकाई / Unit-III

3. ‘विभाजन योग्य लाभ’ से आप क्या समझते हैं ? लाभ के वितरण के सम्बन्ध में मुख्य वैधानिक निर्णय क्या हैं ?

( 3 )

What do you understand by 'Divisible profit' ?  
What are the important legal decisions in regard to distribution of profits ?

*अथवा / OR*

एक बैंकिंग कम्पनी का अंकेक्षण आप किस प्रकार करेंगे ?

How would you conduct the audit of a banking company ?

**इकाई / Unit-IV**

4. अंकेक्षण तथा अनुसंधान में अन्तर कीजिए। अनुसंधान की कार्यविधि की प्रमुख रूपरेखा दीजिए।

Distinguish between Audit and Investigation.  
Indicate in broad outline the procedure.

*अथवा / OR*

निम्न के खातों के अंकेक्षण में आप किन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे ?

(a) धर्मार्थ संस्थाओं के खातों का अंकेक्षण

(b) सूत्रधारी कम्पनी के खातों का अंकेक्षण

What special points you will keep in mind while auditing the accounts of the following ?

(a) Audit of the accounts of the charitable institutions.

(b) Audit of the accounts of the holding company.

( 4 )

**इकाई / Unit-V**

5. लागत अंकेक्षण क्या है? यह वित्तीय अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है? किन बिन्दुओं को एक लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल करना चाहिए? एक ऐसे प्रतिवेदन का प्रारूप दीजिए।

What is Cost Audit ? How does it differ from Financial Audit ? What points should be incorporated in cost audit report ? Give a proforma of such a report.

**अथवा / OR**

प्रबन्ध अंकेक्षण क्या है? इसके महत्व एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। यह वित्तीय अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है?

What is Management Audit ? Discuss its importance and objects. How does it differ from Financial Audit ?